

Vaccines for Children Program (बच्चों के लिए टीके कार्यक्रम)

(Vaccines for Children Program)



अपने बच्चों के लिए टीकों की लागत के बारे में चिंतित हैं? Vaccines for Children (आप बच्चों के लिए टीके कार्यक्रम) (VFC) के माध्यम से टीके प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं।

VFC कार्यक्रम के बारे में:

- ▶ VFC नामांकित सार्वजनिक चिकित्सक कार्यालयों के माध्यम से, बिना किसी शुल्क के, पात्र बच्चों को टीके प्रदान करता है।
- ▶ चिकित्सा विशेषज्ञों, American Academy of Pediatrics (अमेरिकी बाल चिकित्सा अकादमी) और Centers for Disease Control and Prevention (रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों) द्वारा अनुशंसित टीकों को शामिल करता है।
- ▶ पात्र बच्चों को टीका लगाने में बाधा के रूप में लागत को समाप्त या कम करता है।
- ▶ टीके के लिए माता-पिता की जेब से होने वाले खर्च को बचाता है।
- ▶ नियमित डॉक्टर विजिट के दौरान टीके लगवाकर समय बचाता है।

18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं यदि:

- ▶ वे Medicaid पात्र या Medicaid-नामांकित हैं।
- ▶ उनका कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है।
- ▶ वे अमेरिकी इंडियन या अलास्का मूल निवासी हैं, जैसा कि Indian Health Care Improvement Act (25 U.S.C. 1603) (इंडियन स्वास्थ्य देखभाल सुधार अधिनियम (25 यू.एस.सी 1603)) द्वारा परिभाषित किया गया है।
- ▶ उनके पास स्वास्थ्य बीमा है, लेकिन कवरेज में टीके शामिल नहीं हैं, या केवल चयनित टीके शामिल हैं। इस मामले में, बच्चे केवल Federally Qualified Health Center (संघीय अर्हता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र, FQHC) या Rural Health Clinic (ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सालय, RHC) के माध्यम से टीके प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

किसी VFC डॉक्टर के कार्यालय का पता लगाएं:

- ▶ अपने आस-पास VFC चिकित्सक कार्यालय खोजने के लिए या कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारे वेबपेज को देखें, जिसमें एक नक्शा शामिल है।

 <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/vfc.htm>

- ▶ प्रदाता के स्थान, विजिट से जुड़ी किसी भी लागत को सत्यापित करने के लिए औरयह पुष्टि करने के लिए कि चिकित्सक के पास आपके बच्चे के लिए आवश्यक टीके हैं, कृपया पहले कॉल करें।

